

राज्य सभा

संसदीय समाचार

भाग - 2

सं.56455-56456]

बुधवार, 15 मार्च, 2017

सं.56455

प्रश्न शाखा

प्रश्नों की सूचनाओं के बैलट का परिणाम

राज्य सभा की 31 मार्च, 2017 को होने वाली बैठक के लिए 15 मार्च, 2017 को म.प. 3.00 बजे तक प्राप्त तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं के संबंध में 15 मार्च, 2017 को अपर सचिव (एल.) की उपस्थिति में बैलट कराया गया।

सदस्यों की सूचना हेतु तारांकित प्रश्नों के बैलट के परिणाम को सूचना कार्यालय में रखा गया है और बाहरी लॉबी में सूचना पट्ट पर भी लगाया गया है।

सं.56456

पुस्तकालय एवं संदर्भ एकक, लार्डिस

संसदीय संग्रहालय और अभिलेखागार में अभिलेखीय/ऐतिहासिक सामग्री का संग्रह

लोक सभा सचिवालय के संसदीय संग्रहालय और अभिलेखागार में भारत में संसदीय संस्थाओं तथा संविधान के उद्गम, विकास और कार्यकरण से संबंधित महत्वपूर्ण अभिलेखों, ऐतिहासिक दस्तावेजों तथा आलेखों का अर्जन, भंडारण और परिरक्षण किया जाता है। यह महसूस किया गया है कि इन वस्तुओं, जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर का हिस्सा हैं, का संग्रहण, वैज्ञानिक रखरखाव और परिरक्षण किया जाए ताकि भावी पीढ़ी इनका लाभ उठा सके।

सदस्यों से अनुरोध है कि उनके पास उपलब्ध सामग्री यथा, निजी पत्राचार, टिप्पण, आलेख, अभिलेख, पांडुलिपि, भाषण, संस्मरण, डायरी, अवशेष, कलाकृतियां, स्मृति चिह्न, वैयक्तिक चीजें और संकलन, चित्र, फोटो या सांसद और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनके जीवन तथा कार्यकलापों से संबंधित अभिलेखीय/ऐतिहासिक महत्व की किसी अन्य सामग्री के स्थायी परिरक्षण तथा प्रदर्शन हेतु उन्हें **संसदीय संग्रहालय और अभिलेखागार, एफ.बी. 094, संसद ग्रन्थालय भवन (दूरभाष संख्या 23034131, 23034017, फैक्स सं. 23035326)** में जमा कराएं। इन सामग्रियों से संसदीय संग्रहालय और अभिलेखागार समृद्ध होगा और यह शोध कार्य के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आप चाहें तो प्रदान की गई सामग्री, आवश्यक प्रतिलिपियां बनाने के बाद लौटा दी जाएगी। सामग्री की छंटाई तथा इन्हें सूचीबद्ध करने में किसी भी प्रकार की सचिवालयी सहायता लोक सभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

सदस्य कृपया इसमें सहयोग दें।

शमशेर के. शरीफ,
महासचिव।